



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1938 (श0)

(सं0 पटना 45) पटना, शुक्रवार, 13 जनवरी 2017

सं0 2/नि.1-101/11-357

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

19 दिसम्बर 2016

विषय:—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) के पत्रांक-3674 दिनांक 14.06.11 द्वारा अनुशंसित तथा द्वितीय पुनर्नियोजित में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है के कुल-16 (सूची संलग्न) को 27,000/- (सताईस हजार रुपये) मासिक पारिश्रमिक पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन के संबंध में।

1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 100 स्थायी पद स्वीकृत हैं जिसमें मात्र 40 नियमित कनीय अभियंता (यांत्रिक) ही वर्तमान में कार्यरत हैं। इस प्रकार विभाग में कनीय अभियंताओं की काफी कमी है जिसके कारण जलापूर्ति संबंधी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं। इसलिए सरकार के विकास कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए विभाग को कनीय अभियंता की आवश्यकता है।

2. पूर्व में कनीय अभियंताओं के नियमित नियुक्ति हेतु रिक्ति की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है जो सम्प्रति वहां लम्बित है। इस प्रकार नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने की संभावना है इसलिए जनहित एवं कार्यहित में विशेष परिस्थिति में संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं को पुनर्नियोजित करना अपेक्षित जान पड़ता है।

3. संविदा पर नियोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.07 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निरूपित है। नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1718 दिनांक 06.05.10, 1608 दिनांक 24.05.11 एवं 8025 दिनांक 21.05.13 द्वारा पत्र निर्गत है।

4. कनीय अभियंता के स्थायी पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) को प्रशासी विभाग द्वारा वर्ष 2009 में कनीय अभियंता (असैनिक) के 185 तथा कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 42 पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना पत्र प्रेषित किया गया था। जिसपर तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक-2819 दिनांक 21.05.10 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति उपलब्ध करायी गयी। तदनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु जून 2011 में विज्ञापन सं०-0411 प्रकाशित कर लिखित परीक्षा आयोजित की गई तथा परीक्षाफल प्रकाशन किया गया परंतु परीक्षाफल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षाफल को रद्द करते हुए पुनः लिखित परीक्षा आयोजित करने का आदेश पारित किया है। इस आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 25.09.16 को परीक्षा आयोजित करने की घोषणा तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्र सं०- 9/स्था०-01-1008/2003 (अंश) 4922 दिनांक 07.09.16 द्वारा संसूचित की गई।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) के पत्रांक-3674 दिनांक 14.06.11 द्वारा अनुशासित कुल 45 में से तथा द्वितीय पुनर्नियोजित में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है के कुल-16 (सूची संलग्न की संविदा अवधि माह सितम्बर 2015 में समाप्त हो गयी है) को 27,000/- (सत्ताईस हजार रुपये) मासिक पारिश्रमिक पर तृतीय पुनर्नियोजन करने का निर्णय दिनांक 24.11.16 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद सं०-02 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अंशुली आर्या,

प्रधान सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संविदा पर तृतीय पुनर्नियोजन हेतु (जल संसाधन विभाग के पत्रांक-3674 दिनांक 14.06.11 द्वारा आवंटित में से) 16 कनीय अभियंता (यांत्रिक) की सूची :-

क्र०	आवेदन क्रमांक	नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार पता	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	173	श्रीमती रुबी कुमारी	31.12.1989	श्री मदन लाल केशरी	मु०- कांटी कसबा, पो०-थर्मल कॉलोनी, थाना- कांटी, जिला- मुजफ्फरपुर बिहार	क्वार्टर नं०- एफ10/1, एम0टी0वी0एस0 कांटी कॉलोनी, पो०-थर्मल कॉलोनी, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-843130	पि०व०

क्र०	आवेदन क्रमांक	नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार पता	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1685	श्री सौरभ कुमार	07.09.1986	श्री हजारी प्रसाद	8E/10. रोड नं०-2, बी०एच० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800026	8E/10. रोड नं०-2, बी०एच० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800026	पि०व०
3	479	श्रीमती श्रुति कुमारी	05.02.1990	श्री भरत सिंह	ग्राम-सेम्मुआ पो०-टेरी, थाना-मेहन्दिया, जिला- अरवल, बिहार, पिन-804428	C/o.सुमन कुमार, शकुन्तला सदन, आदर्श बिहार कॉलोनी, रूकुनपुरा, पटना-800014	पि०व०म०
4	639	श्री मनोज कुमार	02.03.1971	श्री लक्ष्मण सिंह	ग्राम-तेन्दुआ, पो०-नोनसारी, भाया-नौखा, थाना-करघर, जिला- रोहतास, बिहार	ग्राम-तेन्दुआ, पो०-नोनसारी, भाया-नौखा, थाना-करघर, जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802215	सामान्य (पि०वि०)
5	274	श्रीमती स्वाति कुमारी	19.10.1990	श्री महेन्द्र सिंह	ग्राम-गोनपुरा, पो०-आलमपुर गोनपुरा, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला- पटना, पिन-801505	ग्राम-गोनपुरा, पो०-आलमपुर गोनपुरा, थाना- फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, पिन-801505	पि०व०म०
6	1116	श्री विकास कुमार तिग्गा	02.10.1987	श्री मुकुल उरांव	पी०डब्लू०आई० सहरसा, ईस्ट रेलवे कॉलोनी, सहरसा, क्वार्टर नं०-ई/27 सी	पी. डब्लू. आई. सहरसा, ईस्ट रेलवे कॉलोनी, सहरसा, क्वार्टर नं०-ई/27सी	अनु०ज०जा०
7	75	श्री आर्य कुमार	20-12-1986	श्री महेश सिंह	ग्राम- छोटी रूकनपुरा, पो०- बी०भी० कॉलेज, पटना, पटना, पिन-800014	ग्राम-छोटी रूकनपुरा, पो०-बी. भी. कॉलेज, पटना, पटना-800014	पि०व०
8	926	मो०अली राजा	02.02.1985	मो० जाकिर हुसैन	ग्राम- मखदुमपुर डीह, पो०+थाना- मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद, पिन-804422	C/o मो० आरीफ हुसैन, मक्की मंजिल नीयर बाकरगंज मस्जिद, पो०-लहेरियासराय, दरभंगा, पिन-846001	सामान्य (अ०पि०वि०)
9	1829	श्री अवधेश कुमार	11.02.1986	श्री राज कुमार महतो	ग्राम- गोसाई गांव, पो०- धनकडोम, थाना-घोसवारी, जिला- पटना, बिहार 803302	ग्राम-गोसाई गांव, पो०-धनकडोम, थाना-घोसवारी, जिला-पटना, बिहार-803302	अ०पी०व०
10	1841	श्री सुजीत कुमार	03.04.1991	श्री भोला सिंह	ग्राम- विरई, पो०-अरई, थाना- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद (बिहार) पिन-824113	ग्राम-विरई, पो०-अरई, थाना-दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद, बिहार, पिन-824113	पि०व०
11	497	श्री मुकेश कुमार	10.01.1981	श्री जगदीश दास	ग्राम- धरमपुर, पो०- चटमाडीह, थाना- सुमभूजंग, जिला- बांका, बिहार, पिन-813201	गोल्फ फील्ड, रेलवे कॉलोनी रोड नं०-16, क्वार्टर नं०-294/बी माधुरी चौक, पो०+जिला-समस्तीपुर, बिहार, पिन-848101	अनु०जा०

क्र०	आवेदन क्रमांक	नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार पता	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1527	श्री विपिन कुमार	26.02.1984	श्री केदारनाथ पासवान	ग्राम-बदरखा, पो०-मकवा, थाना-तारापुर, जिला-मुंगेर, बिहार, पिन-813201	C/o निर्मल नन्दी, हाउस नं.-243, एल. नं.-09 ओल्ड कासी, डीह साकची, जमशेदपुर (झारखण्ड) पिन-831001	अनु०जा०
13	15	श्री शशिधर कुमार	02.11.1979	स्व० उपेन्द्र प्रसाद सिंह	ग्राम+पो०-खवासपुर, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन-813209	ग्राम+पो०-खवासपुर, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन-813209	अनु०ज०जा०
14	1389	मो० जावेद शमीम	20.01.1984	मो० शमीम अख्तर अंसारी	ग्राम- सिरानवादा, पो०- अमरथ, थाना- जमुई, जिला- जमुई, बिहार, पिन-811307	ग्राम-सिरानवादा, पो०-अमरथ, थाना+जिला-जमुई, बिहार, पिन-811307	अ०पि०व०
15	169	श्री अरुण कुमार दास	03.07.1989	श्री कौलेश्वर दास	ग्राम-देवरिया, पो०-विकोपुर, थाना-कोठी, जिला-गया, पिन-824210	ग्राम-देवरिया, पो०-विकोपुर, थाना-कोठी, जिला-गया, पिन-824210	अनु०जा०
16	1021	श्री रोहित कुमार शर्मा	17.03.1989	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	ग्राम- श्रीपुर (रौता), भाया- वायसी, जिला- पूर्णिया, पिन- 854315	पता- गोल्डेन लॉज, जय प्रकाश नगर, कोर्ट स्टेशन, पूर्णिया, पिन-854301	अ०पि०व०

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंशुली आर्या,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 45-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>